



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन 1939 (श10)

(सं0 पटना 940) पटना, बुधवार, 11 अक्टूबर 2017

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

26 सितम्बर 2017

सं० /वि०उ०-02-10/11-1648—राज्य की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2014-15 से 2016-17 के लिए अपराम्परागत रूप में आरक्षित किये गये ग्रामों के आरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त आलोक में ऐसे ग्रामों का आगे के वर्षों के लिए आरक्षण, प्रवृत्त आरक्षण के किसी अंश में आवश्यक सुधार एवं मुक्त क्षेत्रों के आरक्षण के उद्देश्य से विभागीय पत्र संख्या-1300 दिनांक-28.07.2017 के माध्यम से राज्य की चीनी मिलों से आगे के वर्षों के लिए आरक्षण प्रस्ताव की माँग की गयी थी। तद्आलोक में बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जितेन्द्र कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार, पटना द्वारा मेसर्स **सासामुसा सुगर वर्क्स लिमिटेड, सासामुसा, गोपालगंज** से प्राप्त प्रस्ताव की सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक-18.09.2017 को पूर्वाह्न 11:45 बजे सुनवाई की गयी।

विभागीय आदेश ज्ञापांक-2314 दिनांक-24.09.2015 के माध्यम से इस चीनी मिल को पराम्परागत रूप से पेराई सत्र 2015-16 से 2019-20 के लिए आरक्षित 281 ग्रामों के आरक्षण एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक-2219 दिनांक-30.09.2014 के माध्यम से अपराम्परागत रूप से पेराई सत्र 2014-15 से 2016-17 के लिए आरक्षित 260 ग्रामों के आरक्षण से संबंधित आदेश पत्र का भी अवलोकन किया गया।

अपने क्षेत्र आरक्षण के प्रस्ताव के सन्दर्भ में मेसर्स सासामुसा सुगर वर्क्स लिमिटेड, सासामुसा, गोपालगंज के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 2450 TCD है। उन्होंने बताया गया कि पेराई सत्र 2017-18 के लिए उनका NCR 29.37 लाख क्विंटल निर्धारित किया गया है। उनके आरक्षित क्षेत्र में 21570 एकड़ में गन्ने की खेती हुई है जिसमें लगभग 140 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पेराई हेतु 30.20 लाख क्विंटल गन्ना उपलब्ध होने की संभावना थी परन्तु, हाल में आये बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है उसका कारण आगामी पेराई सत्र में अनुमानित 25 लाख क्विंटल गन्ने की ही उपलब्धता रहेगी। चीनी मिल के पेराई हेतु न्यूनतम गन्ने की आपूर्ति हेतु उनके मिल द्वारा अपने आरक्षित क्षेत्र में वर्षवार सरकार द्वारा चलाये जा रहे ईख विकास के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। उपरोक्त आलोक में उनके द्वारा पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 260 अपराम्परागत रूप से आरक्षित ग्रामों को पेराई सत्र 2017-18 से 2019-20 तक अपराम्परागत रूप में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त प्रबंधक द्वारा हथुआ क्षेत्र के 143 ग्रामों को भी इनके पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया जिसपर विष्णु सुगर मिल के प्रबंधन द्वारा

अपनी आपत्ति दर्ज करायी गयी। इस मिल द्वारा समर्पित 260 ग्रामों के आरक्षण के प्रस्ताव के विरुद्ध किसी अन्य चीनी मिल द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी।

इस सुनवाई के पूर्व दिनांक 13.09.2017 को संबंधित क्षेत्र के गन्ना कृषकों की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गई भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों, जनपतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। गोपालगंज जिला के क्षेत्रीय विकास परिषद् के अनुशंसा का भी अवलोकन किया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सासामूसा चीनी मिल द्वारा प्रस्तावित आरक्षण प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त एवं संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद चीनी मिल को एन.सी.आर. के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हथुआ चीनी मिल क्षेत्र का 109 ग्राम, विजयीपुर, कटेया प्रखंड का 122 ग्राम पूर्वी चम्पारण के 29 ग्रामों कुल 260 ग्रामों को पेरार्ड वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन पेरार्ड सत्रों के लिए) निम्नांकित ग्रामों को जिसका विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची 'क', 'ख' एवं 'ग' दर्शित है, को अपरम्परागत रूप में आरक्षित किया जाता है:-

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	समेकित कुल ग्रामों की संख्या	ग्रामों के विवरण की अनुसूची
1	2	3	4
गोपालगंज	कटेया, पंचदेउरी (हथुआ क्षेत्र)	109	अनुसूची 'क'
	कटेया, विजयीपुर	122	अनुसूची 'ख'
पूर्वी चम्पारण	कोटवा, चकिया, मधुबन एवं कल्याणपुर	29	अनुसूची 'ग'
	कुल योग:-	260	

आदेश से,
जितेन्द्र कुमार सिंह,
ईखायुक्त, बिहार।

सासामूसा सुगर वर्क्स लिमिटेड, सासामूसा, गोपालगंज को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिये आरक्षित अपरम्परागत हथुआ क्षेत्र के 109 ग्रामों की सूची।

अनुसूची - 'क'

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं०
1	2	3	4	5
1.	गोपालगंज	कटेया	रामदास बगही	392
2			कंचनपुर	409
3			धरहरा नं०-2	441
4			पहलदवा	442
5			भेड़िया	443
6			रानीपुर निजामत दोयम	448
7			रानीपुर	449
8			रानीपुर निजामत	450
9			दुहौना	451
10			भरथही	452
11			धरहरा नं०-1	453
12			बरवा	454
13			सरेया	455
14			भलुही दयाराम	456
15			नेउरी	457
16			अमवा	458
17			रामपुर	459
18			रकबा रामपुर	460
19			बिशुनपुरा	461
20			प्रसिद्धनाथ	462
21			ढोड़ीला	463

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं०
1	2	3	4	5
22			गउरा	468
23			मानपुर	469
24			कोटवा खास	470
25			बभनी	471
26			कोटवा निलामी	472
27			भलुही आश्रम	473
28			एराजी रूदरपुर	474
29			रूदरपुर	475
30			सहजनवा कला	476
31			पकड़ियार	477
32			झिलवनिया	478
33			अमेया	480
34			परसौनी	481
35			भागी पट्टी खुर्द	482
36			सहजनवा खुर्द	483
37			भागी पट्टी झिल	484
38			सुकसेनवा मिसिर	485
39			सुकसेनवा भवानी राय	486
40			सुकसेनवा देवराय	487
41		पंचदेवरी	बरईवेली	368
42			—शेखवेली	369
43			दिउलियाँ	394
44			राजापुर	395
45			बेलीदुसौधी	396
46			टेरखेमराज	397
47			दुर्गाचक	398
48			मगहियाँ	399
49			भंगही	400
50			मठिया	401
51			सोहागपुर	402
52			पोइयाँ गिरधर	403
53			छितौना	404
54			निरपत छापर	405
55			शीतल चोरहा	406
56			बनकटिया	407
57			लोहटी	408
58			देउरिया	413
59			मुजहा	414
60			परसा	415
61			बातलचोरहा	416
62			महंथवा	417
63			जमुनहा	424
64			भिरगीचक	425
65			सिघरिया	426
66			मउनहा	427
67			भंगहा	428
68			इनरपट्टी	429
69			ढदुवाँ	430
70			सेमरिया	431

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं०
1	2	3	4	5
71			चकिया	432
72			रूपीबगही	433
73			नन्दपट्टी	434
74			खालगाँव	437
75			गहनी	438
76			मंझवलिया	439
77			फतुछापर	464
78			परसौनी खुर्द	465
79			महुआवाँ	466
80			सबैया	467
81			गोपालपुर	479
82			मचवाँ	488
83			मिसरौली	489
84			राजापुर	490
85			बिसुनपुरा	491
86			दत्तपट्टी	492
87			बहेरवाँ	493
88			मोतीपुर	494
89			कुकुरमुका	495
90			हरहरवाकला	496
91			तिवारीटोला	497
92			चकरपान	498
93			रामपुर	499
94			सुकरौली	500
95			परसौनीकला	501
96			नेहरूआकला	502
97			नेहरूआखुर्द	503
98			भटवा	504
99			सुरेमनचक	505
100			दुबौलिया	506
101			तिवारीछपरा	507
102			चयनटोला	508
103			नोहरटोला	509
104			एराजी पंचदेवरी	510
105			गंगाराम टोला	511
106			तेतरिया जगरनाथ	516
107			मंझरिया	517
108			मानिकछपरा	533
109			भटवाखुर्द	534

अनुसूची-‘ख’

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं०
1	2	3	4	5
1	गोपालगंज	विजयीपुर	रन्डे	1
2	“	“	मठिया	2
3	“	“	बन्डे	3
4	“	“	बरहरा	4
5	“	“	मथौली	5
6	“	“	भवानी छपरा	6

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं०
1	2	3	4	5
7	"	"	भजौली खुर्द	7
8	"	"	मिटुपुर	8
9	"	"	पगरा	9
10	"	"	शिपुर	10
11	"	"	भजौली कला	11
12	"	"	मारपी	12
13	"	"	जगदीशपुर	13
14	"	"	चुगरी	14
15	"	"	तेतरीया	15
16	"	"	करमचार	16
17	"	"	इटवा	17
18	"	"	सबेया	18
19	"	"	सुखपुरा	19
20	"	"	महेशपुर	28
21	"	"	खजुहो खुर्द	29
22	"	"	पुरेना	30
23	"	"	पगरा खुर्द	31
24	"	"	बभनौली	32
25	"	"	मठिया	33
26	"	"	पाण्डेयपुर	34
27	"	"	बेलवा लाला	35
28	"	"	बिजुली चक	36
29	"	"	मठिया लाला	37
30	"	"	छठीयाव	38
31	"	"	कुर्थियाँ	39
32	"	"	खजुहो कलौ	40
33	"	"	पिपरा	41
34	"	"	बंजरिया	42
35	"	"	जजवलिया	43
36	"	"	बेलवा	44
37	"	"	बौराहीं	45
38	"	"	महुआ	46
39	"	"	छापराहीं	47
40	"	"	चकधनौती	48
41	"	"	दिघवा	49
42	"	"	तिलौली	50
43	"	"	सुरजपुरा	51
44	"	"	बिलरुआ	52
45	"	"	नौतन	53
46	"	"	धनौती	54
47	"	"	रामपुरवा	55
48	"	"	फरुसहां	57
49	"	"	अधैला मिश्र	58
50	"	"	रेवही	96
51	"	विजयीपुर	मिश्र बंधौरा	99
52	"	"	महुई	101
53	"	"	रामनगर	102
54	"	"	हरपुर	103
55	"	"	कोहरवलीया	117

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं०
1	2	3	4	5
56	"	"	पटखौली	120
57	"	"	धोबवल	121
58	"	"	सुदामाचक	122
59	"	"	बिक्रमपुर	123
60	"	"	मटियारी	124
61	"	"	मठिया	125
62	"	"	छरीदाहा	126
63	"	"	बहेरवा	127
64	"	"	शिवदत्त छपरा	128
65	"	"	बकेनिया	129
66	"	"	मझौलिया	130
67	"	"	उदयपुरा	131
68	"	"	नौवा डीह	132
69	"	"	पिपराही	133
70	"	"	किशुनपुरा	135
71	"	"	सोनडिहा	217
72	"	"	परसा	251
73	"	"	रानीपुर	254
74	"	"	खैरटीया	20
75	"	"	रामपुर	21
76	"	"	खिरिया	22
77	"	"	सोनवर्शा	23
78	"	"	चैनपुरा	24
79	"	"	अमवा	25
80	"	"	हरी मरपी	26
81	"	"	हरपुर	27
82	"	"	रौतारी	56
83	"	"	अघैला बाबू	59
84	"	"	कोरेया	60
85	"	"	लोहरौली	61
86	"	"	परसौनी	62
87	"	"	कलीयनवा	63
88	"	"	भानपुर	64
89	"	"	लक्ष्मीपुर	65
90	"	"	सरोपई	66
91	"	"	परसही	67
92	"	"	बनकटा	68
93	"	"	समहुती	69
94	"	"	नोना पाकड़	70
95	"	"	खीरीडिह	71
96	"	"	भरपुरवा	77
97	"	"	मठिया डीह	78
98	"	"	घुरन छपरा	79
99	"	"	अमवा घाट	80
100	"	"	नौका टोला	81
101	"	"	बभनौली	82
102	"	"	खुटहा	83
103	"	"	चौमुखा	84
104	"	"	मानकी डिह	85
105	"	"	कौलाचक	86

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं०
1	2	3	4	5
106	"	"	रसूलपुर	87
107	"	"	माडर खास	88
108	गोपालगंज	कटेया	बैरिया	72
109			पकड़ी	73
110			बुढ़िया बारी	74
111			डुमरौना	75
112			बेलही खास	141
113			लेतिया	142
114			बेलही डीह	143
115			भोपतपुर	144
116			पटखौली	150
117			मिश्रौली	151
118			छपवा	152
119			समोगर	157
120			कैलानापुर	160
121			धनौती	162
122			जसौली	164

सासामुसा सुगर वर्क्स लि०, सासामुसा को पेराई सत्र 2017-18 से 2019-20 तक अपराम्परागत रूप में आरक्षित किये गये ग्रामों की सूची:-

अनुसूची- 'ग'

क्रमांक	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं०
1	2	3	4	5
1	पूर्वी चम्पारण	चकिया / पिपरा	हरपुर	11
2			चिन्तामनपुर	105
3			बंगरी	12
4			फुलवरिया परशुरामपुर	15
5			चिन्तामनपुर	04
6			रामगढ़वा	05
7			नवजामीन	06
8		कोटवा	बरवां कंठ छपरा	14
9			डुमरी	13
10			अशोक पकड़ी	61
11			अशोक पकड़ी	62
12			अशोक पकड़ी	63
13			पकड़ी डुमरी ननकार	65
14.		कल्याणपुर	तेनुआ	57
15.			महारानी भोपत	58
16.		मधुबन	मनपुरवा	23
17.			जोगबलिया टोला डोमाघाट	25
18.			जोगबलिया टोला चौबे	26
19.			बिजधरिया	27
20.			पदमोह	55
21.			कदमा	57
22.			बलभद्रपुर	58
23.			नरहाननकार	59

24.			नरहापान्सेपुर	60
25.			सरैया	61
26.			मेघुआ	62
27.			मुरगई चक	79
28.			मधुबन सरैया	80
29.			मधुबन गंगापुर	81

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
 बिहार गजट (असाधारण) 940-571+50-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>